

#### **NIIT Limited**

85, Sector-32, Institutional Gurgaon 122001, India Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Email: info@niit.com

Registered Office:

8, Balaji Estate, First Floor Guru Ravi das Marg, Kalkaji New Delhi 110 019, India CIN: L74899DL1981PLC015865

www.niit.com

May 04, 2020

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd
Listing Department
Exchange Plaza
5<sup>th</sup> Floor, Plot no C/1, G Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

The Manager
BSE Limited
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

Subject: Newspaper Advertisement of Notice to shareholders for transfer of equity shares to IEPF Authority

Scrip Code: BSE - 500304; NSE - NIITLTD;

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the requirement of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the notice in respect of transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund Authority, published in the newspapers i.e. Financial Express (English Language) and Jansatta (Regional (Hindi) Language) on May 02, 2020.

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours truly, For **NIIT Limited** 



Deepak Bansal Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

**FINANCIAL EXPRESS** 

### TO PROTECT CREDIT RATING

## Govt set to cap stimulus package at \$60 billion

The stimulus plans yet to be outlined are likely to be aimed at helping people who have lost their jobs, as well as both small and large firms

AFTABAHMED & MANOJ KUMAR New Delhi, May 1

THE GOVERNMENT IS likely to cap its overall spending on coronavirus-related relief at around ₹4.5 lakh crore (\$60 billion), due to concerns that excess spending could trigger a sovereign rating downgrade, two senior government officials said.

"We have to be cautious as downgrades have started happening for some countries and rating agencies treat developed nations and emerging markets very differently," the first official told Reuters.

On Tuesday, Fitch warned India's sovereign rating could come under pressure if its fiscal outlook deteriorates further as the government tries to steer the country through the coronavirus crisis.

"We have already done 0.8% of GDP, we might have space for another 1.5%-2% GDP," the official, who is involved in preparing the package said, referencing the ₹1.7 lak crore outlay that the government announced in March that was directed at

MAHA METRO RAIL Corpora-

tion has resumed work on the Pune Metro rail project after

green signal from the state

government and the civic body and easing of restrictions imposed during the lockdown.

With work stalled for more

than amonth, the Pune Metro

project has missed the target

set to start the first five-km

start work immediately as it had

made arrangement for around

2,000 labourers working on the

project to stay in labour camps

across the metro network pro-

ject sites, Hemant Sonawane,

tor was discussing with con-

tractors on plans to start work

with new standard operating

procedures keeping in mind

safety and health concerns. As

of now the project is focused

on finishing some critical work

along the river front, which

will have to be finished before

the monsoon season begins

with rains expected to hit the

city on June 7, Sonawane said.

the river as well as two railway

stations coming up on the

parts of the project will depend

on how quickly the supply

chain is restored with flow of

cement and steel resuming,

BARODA MUTUAL FUND

Place : Mumbai

Date : April 30, 2020

redemption/switch-out, shall remain unchanged.

river front have resumed.

Work on the structures on

The progress on the rest

Sonawane said the opera-

Maha Metro has been able to

stretch by April 2020.

GM, Maha Metro, said.

**GEETA NAIR** 

Pune, May 1



helping the poor via cash transfers and food grain distribution.

The stimulus plans yet to be outlined are likely to be aimed at helping people who have lost their jobs, as well as both small and large companies, via tax holidays and other measures, said both officials. They did not wish to be named as the matter is still under discussion.

A spokesman for the finance ministry declined to comment.

Fitch and Standard & Poor's both have India pegged at an investment grade rating that is one notch above a junk rating, while Moody's Investors Service is the only major rating agency that has India's rating two notches above junk.

With a 40-day nationwide lockdown bringing the \$2.9 trillioneconomy to a standstill, and the lockdown in many of te country's big cities likely to be extended, many economists expect the economy to stagnate, or even shrink this year, putting further pressure on government finances.

The second official said government revenues are in a

Work on Pune Metro project

resumes as restrictions ease

Sonawane said. The operator

has an inventory of steel and

cement for around 10 to 12

days of work but supplies will

need to resume soon, he said.

to make vendor payments for

theworks that have already been

completed, and it does not fore-

tractors - Tata Gulermak,

URC Construction, NCC, J

Kumar, HCC, Shapoorji Pallonji

and AFCONS among them -

ensured that majority of their

labourers stayed back during

the Covid-19 outbreak and

only 20% of the labourers

returned home to UP, Bihar

and West Bengal. Not a single

positive case was reported in

any of the labour camp sites,

Sonawane said. So they will be

able to ramp up in quick time

and make up for the lost time,

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 30/2020

Extension of revised cut off timings for the applicability

of Net Asset Value (NAV) for the schemes of Baroda Mutual Fund

Further to the notice cum addenda no. 25/2020 dated April 6, 2020 and no. 28/2020 dated

April 17, 2020 issued by Baroda Asset Management India Limited, and pursuant to the SEBI

communication dated April 30, 2020, investors / unit holders may note that such revised cut off

timings for applicability of NAVs in respect of subscription and redemption of units of the

All the other terms and conditions of the above-mentioned notice-cum-addendum dated April

2020 and provisions of the scheme information documents of the schemes of the Mutual

Fund, relating to the applicability of NAVs, both in cases of subscription/switch-in and

Mutual Fund investments are subject to market risks,

read all scheme related documents carefully.

For further details, kindly contact:

Baroda Asset Management India Limited

(Formerly known as Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd.)

CIN: U65991MH1992PLC069414 501, Titanium, 5th Floor, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.

Tel. No.: +91 22 6848 1000 • Toll Free No.: 1800 267 0189

Visit us at : www.barodamf.com • Email : info@barodamf.com

(Formerly known as Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd.)

schemes of Baroda Mutual Fund ("Mutual Fund"), have been extended until further notice.

he said.

Pune Metro and its con-

seeany cash flow issues.

MahaMetro has also decided

tight position given "very weak" tax collections, and the fact that a 2.1 trillion privatisation programme planned for

salaries of lawmakers including the prime minister and the president, and withheld raises for government employees and pensioners, in a drive to save as much as it can to con-

India has a fiscal deficit target of 3.5% of GDP for the current year that runs through March 2021, which it is most likely to miss due to weak revenue collections.

when revenues are falling, and theeconomyneedsgovernment support, the widening of the fiscal deficit is a foregone condusion, the second official said.

"Considering our higher fiscal deficit ... there is limited scope for government to spend," the second official told

35,000 cases and 1,147 confirmed deaths from the coron--REUTERS avirus.

Work on the Pune Metro

comprising two lines of 32 km

started in December 2016 and

was to end in 2022. Commis-

sioning of work on 10 km of

Line 1 and Line 2 was to be

done in the first half of 2020.

Pune Metro had reached the

stage of trial run of coaches

within a short span of 30

months and was to start tech-

nical trail runs and go for regu-

latory dearances and certifica-

tion required for starting train

one of 16.589 km from PCMC

to Swargate with five under-

ground stations and nine ele-

vated stations. Line 2 is 14.665

km from Vanaaz to Ramwadi

with 16 stations. The Pune

Metro projects is funded

through bilateral loan from

European Investment Bank to

the tune of 600 million euro

and 245 million euro from AFD.

Pune Metro comprises line

operations.

For Baroda Asset Management India Limited

(Investment Manager to Baroda Mutual Fund)

Authorised Signatory

## No entry for commuters at Delhi-Haryana border

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, May 1

WTH HARYANA GOVERN-MENt sealing its borders with Delhi to contain Covid-19 spread, scores of people commuting to Gurugram were sent back on Friday by the state police, which only allowed passage of those associated with essential services.

The policeman manning the borderatSarhaultollhad atough time handling the situation as motorists and people having jobs in Gurugram argued with them showing their passes. While the Haryana government has said that people associated with essential services will be allowed to enter Gurugram, several people daimed that despite having passes, the police did not allow them to cross the border.

"I am a nursing staff in a hospital at IFFCO chowk in Gurugram but they are not

allowing me to cross the border. Earlier, the police would see my identity card and let me throughbut now they are not," said Rahul Singh, a resident of Rajokri in Delhi, who was stopped at the Delhi-Gurugram border near Sarhaul. Haryana's home and health

ministerAnilVij had recently said borders of the state with Delhi have been "sealed" and stricter restrictions will be imposed on those coming in from the national capital while only those associated with essential services will be allowed to enter. Haryana will be in a "com-

fortable position" as far as Covid-19 cases are concerned if the borders stay sealed for 15-20 days, Vij had said.

Another regular commuter from Delhi to Gurugram, Dipak Kumar, a hardware engineer with an internet service provider alleged his pass was not accepted by the police.



Ref. No. 05-2021-WSF/01W Date: 02.05.2020 Notice Inviting Global E-Tender

Bids are invited for supply of Water Soluble Fertilizers (WSF-NPKs) of different grades at JNPT, Mumbai. For details, visit websites: www.nationalfertilizers.com, www.eprocure.gov.in and tenderwizard.com/NFL (E-Tender No. NFL-2057). Last date for bid submission is 18th May, 2020 (1400 hrs. IST). Corrigendum/ Addendum, if any, shall be published only on above websites.

**Executive Director (Materials)** 



Online Open Tender in Two Bid system for E-Tender cum Reverse Auction for Professional Services

or Cargo Handling at Inland Co	mainer Depot at PSWO, Dappar only inrough e-tendering mode.			
Tender No.	CON/NR/TC/Cargo, Hand./PSWC/2020			
Name of Work	Professional Services of Cargo Handling at ICD/PSWC, Dappar			
Estimated Cost	₹54,91,602/-(including GST) per annum			
Period of the contract	1+1 years			
Earnest Money Deposit*	₹1,09,900/- through e-payment			
Cast of Document*	₹ 1000/-inclusive of all taxes and duties through e-payment			
Tender Processing Fee*	₹3,240/-inclusive of all taxes and duties (Non-refundable) throughpayment			
Date of Sale (On Line)	From 02.05.2020 at 1500 hrs. (upto 15.05.2020 at 1600 hrs.)			
Last Date & Time of submission	On 18.05.2020 upto 1500 hrs.			
Date & Time of Opening	On 19.05.2020 at 1530 hrs.			
CONTRACTOR	U Maria De Carlo Contracto de Carlo			

For eligibility criteria and other details please log onto www.concorindia.com or eprocure.gov.in or www.tenderwizard.com/CCIL. Bidders are requested to visit the websites regularly. CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons thereof. For complete details logon to www.tenderwizard.com/CCIL. Group General Manager/NR



#### NOTICE CUM ADDENDUM

This notice cum addendum sets changes to Scheme Information Documents (SIDs) / Key Information Memorandums (KIMs) of all Open Ended schemes of Tata Mutual Fund for revision in cut-off

In continuation of the notice cum addendum published on 18th April, 2020 the following revised cut-off timing has been extended till further

The cut off timings for transactions will be as follows:

In case of Subscription (including switch-in)

For Tata Liquid Fund and Tata Overnight Fund - 12.30pm For other than Tata Liquid Fund and Tata Overnight Fund - 1.00pm

In case of Redemption (including switch-out)

For Tata Liquid Fund and Tata Overnight Fund - 1.00pm For other than Tata Liquid Fund and Tata Overnight Fund - 1.00pm

All other provisions of SEBI Mutual Fund Regulations regarding applicability of NAV in respect of subscription and redemption remain unchanged.

This notice cum addendum will form an integral part of the SID & KIM of all open ended schemes of Tata Mutual Fund.

All other terms & conditions of the SID & KIM read with other addendums including type of scheme & risk-o-meter remain unchanged.

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



### NIIT LIMITED

Regd. Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110019 Phone No.: +91-11- 41675000, Fax No.: +91-11-41407120 CIN: L74899DL1981PLC015865 Website: www.niit.com; Email: investors@niit.com

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Account, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016 and amendments made thereunder.

Pursuant to the Rules, unpaid or unclaimed dividends are required to be transferred by the

Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government, after completion of seven years. Further, Equity Shares of the Company, in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company

to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Suspense Account. In view of the outbreak of COVID-19 pandemic in India, the Company is unable to send individual notices to those shareholders who have not claimed their dividend for seven (7 consecutive years or more in terms of IEPF Rules. The Company shall dispatch notices

to aforesaid shareholders at their registered address once the normalcy restored, inter-alia, providing them the details of their unclaimed dividend and giving them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by Friday, July 17, 2020, to avoid transfer of their shares to the Demat account of IEPF Authority. The detail of such shareholders, unclaimed dividend and shares liable for transfer to IEPF

Suspense Account is available on Company's website i.e. www.niit.com for information and necessary action by the shareholders.

Concerned shareholder(s) may immediately visit our website to verify the details of the unclaimed/unpaid dividend and the shares liable to be transferred to IEPF and approach the Company at the co-ordinates indicated below with necessary documents supporting their dividend claim. Failing receipt of communication by July17, 2020, the Company will proceed to transfer the dividend and/or shares, by the due dates specified by the Rules or such further extended date as may be applicable, for necessary compliance. In this connection, please note that:-

i.For shares held in physical form: New share certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the Demat account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new share certificate(s) the original share certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery. ii. For shares held in electronic mode: The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice

The members may further note that the details made available by the Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for transfer of shares to IEPF. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

The Unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF, may be claimed by the

concerned shareholder from the IEPF Authority by following the procedure prescribed

under the aforementioned IEPF Rules. For any queries on the subject matter, you may contact Company's Investors Service Department at 8, Balaji Estate, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 1100019, Phone: 011-41675000; Fax: 011-41407120, Email: investors@niit.com

For NIIT Limited Place: Delhi Date: May 1, 2020

### Jet fly-pasts, petal shower to thank 'corona warriors'

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, May 1

THE INDIAN ARMED forces will conduct fly-pasts, light up ships at sea, play military bands and shower flower petals on hospitals treating coronavirus patients on Sunday in a grand display of gratitude to lakhs of people like doctors, paramedics and policemen engaged in the

country's fight against the pandemic.

The announcement was made by chief of defence staff Gen Bipin Rawat at a press conference in presence of Navy chief Admiral Karambir Singh, Army chief Gen M M Naravane and air chief marshal RKS Bhadauria.

"The nation stood together and showed resilience in dealing with the coronavirus pandemic. On behalf of armed forces, we want to thank all the corona warriors - doctors, nurses, sanitation workers, police, home guards, delivery boys and media,"Gen Rawatsaid.

"On May 3, there will be some special activities as a gesture of special gratitude by all three forces,"he said, addressing his first press conference after assuming charge of India's first chief of defence staff in January.

#### JM FINANCIAL MUTUAL FUND NOTICE-CUM-ADDENDUM

JM FINANCIAL

THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ("SAI"), SCHEME INFORMATION DOCUMENT ("SID") AND KEY INFORMATION MEMORANDUM ("KIM") OF ALL THE SCHEMES OF JM FINANCIAL MUTUAL FUND (THE "FUND")

ADVANCING OF CUT OFF TIMINGS FOR TEMPORARY PERIOD - EXTENSION TILL FURTHER NOTICE

In the light of RBI's Press Release dated April 30, 2020 and April 16, 2020 on the extension of time line for amended trading hours, SEBI has directed the Mutual Funds to extend the applicability of the current revised timings for Mutual Fund Schemes till further notice

Investors are hereby informed that in continuation to our addendum no. 01/2020-21 dated April 06, 2020, and addendum no. 04/2020-21 dated April 17, 2020 advancing of cut - off timing for temporary period has been extended till further notice

This notice cum addendum forms an integral part of SAI, SIDs and KIMs of the Scheme(s) of the Fund, as amended from time to time. All the other terms and conditions of SAI, SIDs and KIMs of the Scheme(s) will remain unchanged.

Place: Mumbai Date: May 01, 2020

Authorised Signatory JM Financial Asset Management Limited (Investment Manager to JM Financial Mutual Fund)

For further details, please contact:

JM Financial Asset Management Limited (Formerly known as JM Financial Asset Management Private Ltd.),

Registered Office: 7th Floor, Chergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025. Corporate Office: Office B, 8th Floor, Chergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025. Corporate Identity Number: U65991MH1994PLC078879. • Tel. No.: (022) 6198 7777 Fax No.: (022) 6198 7704.
 E-mail: investor@jmfl.com · Website : www.jmfinancialmf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme REF No. 06/2020-21 related documents carefully.

### **VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED**

CIN-U65929TN2017PTC117196

Audited Standalone Financial Results for the year ended 31st March 2020

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(₹ in Lakhs) Half Year ending Corresponding Year ending Corresponding

No.	263.70850003	March 31, 2020	Half Year ending March 31, 2019	March 31, 2020	year ending March 31, 2019
1	Total Income from Operations	8,183.57	2,396.73	14,774.18	3,552.94
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	497.27	(369.39)	1,388.31	(603.58)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	497.27	(369.39)	1,388.31	(603.58)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	386,45	(216.84)	1,029.09	(450.02)
5	Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	372.57	(192.82)	1,021.71	(426.50)
6	Paid up Equity Share Capital	1,130.02	1,130.01	1,130.02	1,130.01
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	57,445.54	17,880.41	57,445.54	17,880.41
8	Net worth	66,346.04	23,710.91	66,346.04	23,710.91
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	77,664.71	34,746.67	77,664.71	34,746.67
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	8.11	- E	8.11	
11	Debt Equity Ratio	1.17	1.47	1.17	1.47
12	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	2.76 0.55	(1.75) (1.13)	7.36 1.45	(3.63) (2.34)
13	Capital Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil
14	Debenture Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil

SI.

**Particulars** 

The above is an extract of the detailed format of the yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the yearly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (BSE: www.bseindia.com) and Company's website (www.vivriticapital.com).

For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (BSE) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).

For Vivriti Capital Private Limited

: Chennai : April 28, 2020

Vineet Sukumar Managing Director

## NOTICE

Mutual Fund

Principal<sup>®</sup>

Principal Asset Management Pvt. Ltd.

(Formerly known as Principal Pnb Asset Management Company Private Limited)

Regd. Off.: Exchange Plaza, 'B' Wing, Ground Floor, NSE Building, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. • Toll Free: 1800 425 5600 • Fax: (022) 6772 0512 E-mail: customer@principalindia.com • Visit us at: www.principalindia.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) & KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF THE SCHEMES OF PRINCIPAL MUTUAL FUND (PMF) [NO.22/2020]

A. Extension of revised cut-off timings:

Further to the notice ad dated April 17, 2020 and in light of RBI Press Release dated April 30, 2020 wherein RBI extended the applicability of amended trading hours till further notice for all RBI regulated markets, SEBI has also extended the reduced cut-off timing for both subscription and redemption in mutual fund schemes till further notice. Accordingly, the revised cut-off timing as per the notice cum addendum No. 19/2020 dated 06, 2020 shall remain effective till further notice in this regard.

All other terms and conditions as laid out in the aforesaid notice cum addendum remain

B. Resumption of services at few Investor Service Centres ("ISCs") and Official Points of Acceptance ("OPAs") of RTA:

Investors / unit holders are hereby informed that services at few ISCs and OPAs of the RTA have been resumed. Investors / unit holders are advised to refer to the website of Principal Mutual Fund at www.principalindia.com for the list of ISCs and OPAs that are made operational from time to time for submitting their commercial and non-commercial transactions.

However, Investors and Distributors of Principal Mutual Fund are requested to use digital/ electronic modes for their mutual fund transactions and avoid travelling except for medical reasons or emergencies till the situation becomes normal.

C. Acceptance of non-commercial transactions:

PMF will also accept non-commercial transactions on email id pmftrxn@principalindia.com from the registered email id of the investor or a signed scanned request (where email id is not registered), along with the respective enclosures. The types of non-commercial transactions that will be accepted and processed over email will be published on the website of PMF from time to time. PMF will process the request after conducting necessary due diligences as considered appropriate. PMF reserves the right to reject such request which is incomplete / does not provide the requisite documents.

Contents hereof shall form an integral part of the SID/SAI/KIM of the Scheme(s) of Principal Mutual Fund as amended from time to time and all other features / terms and conditions thereof remain unchanged.

For further information/assistance, do visit us at www.principalindia.com or e-mail us at customer@principalindia.com or call on our Toll Free: 1800 425 5600.

For Principal Asset Management Pvt. Ltd.

(Formerly known as Principal Pnb Asset Management Company Private Limited)

**Authorised Signatory** Date: May 01, 2020 Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Deepak Bansal

Company Secretary

Place: Mumbai

this fiscal year, now looks like it will be a non-starter. The government has cut

trol fiscal slippage.

In this economic situation

India has reported over

## मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर पुलिस पर पथराव, पांच घायल

लखीमपुर (असम), 1 मई (भाषा)।

असम के लखीमपुर जिले के एक गांव में पूर्णबंदी के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश पर पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। इसमें चार पुलिसकर्मियों समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

घटना गुरुवार की रात को हुई जब मस्जिद में एकत्रित होकर नमाज पढ़ने की सूचना मिलने पर नोबोइचा पुलिस चौकी प्रभारी बिस्वजीत नाथ के नेतृत्व में पुलिस का एक दल दक्खिन पन्धोवा गांव पहांचा।

एक अधिकारी ने बताया कि मस्जिद में लोगों के एकत्रित होने की सूचना पुलिस को ग्राम प्रधान से प्राप्त हुई थी। पुलिस का दल

इमाम के साथ 12 लोग पाए गए।

से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए समूह में नमाज न पढ़ने का अनुरोध किया।

मस्जिद के पास खुली कुछ दुकानें भी बंद

उन पर पथराव किया गया। दल इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था। इस घटना में चार सुरक्षाकर्मी और ग्राम प्रधान घायल

घटना स्थल पर पहुंचा जहां मस्जिद के भीतर हो गया। घटना के दौरान बिस्वजीत नाथ, असम पुलिस कांस्टेबल करुणा बुजरबरुआ, अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इमाम सीआइएँसएफ कर्मी भूमिचार नरंजारी और सरोज यादव और ग्राम प्रधान अब्दुल जलील फरशी चोटिल हो गए। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा अधिकारी ने कहा कि पुलिस दल ने गया। पुलिस के अनुसार उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है।

गुरुवार की रात वरिष्ठ अधिकारी घटना उन्होंने कहा कि जब पुलिस का दल स्थल पर पहुंचे और उन्होंने लाउड स्पीकर मस्जिद से बाहर निकलने ही वाला था तभी से लोगों को घरों में रहने का निर्देश दिया। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती

घटना के संबंध में लखीमपुर पुलिस थाने में 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की घटना में पुलिस का बाहन भी क्षतिग्रस्त । गई है और आगे की जांच जारी है।



घर वापसी के लिए पंजीकरण कराने शुक्रवार को बंगलुरु में जिलाधिकारी के कार्यालय जाते प्रवासी।

### महाराष्ट्र में 83 फीसद मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं

मुंबई, 1 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र में कोविड-19 के करीब 83 फीसद मरीज ऐसे हैं, जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं हैं और इनमें से 20 फीसद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शक्रवार को यह जानकारी दी।

टोपे ने एक बयान में कहा कि राज्य में इस महामारी से मृतकों की दर कम होकर 3.5 फीसद पर आ गई है जबकि संक्रमण के मामले दोगुने होने की औसत दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने जालना में संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र के 36 में से 14 जिले रेड जोन में हैं, 16 ऑरेंज और छह जिले ग्रीन जोन में हैं।

टोपे ने कहा कि मुंबई में एक 2,000 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया गया है, जहां घनी आबादी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे बुजुर्ग नागरिकों को स्क्रीनिंग के बाद पृथक-वास में रखा जा सकेगा जोकि अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्यभर में 733 निषिद्ध क्षेत्र हैं। महाराष्ट में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 10,000 के पार पहुंच चुके हैं।

## मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण में बहुत कमी आई है: शिवराज

भोपाल, 1 मई (भाषा)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है और गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में प्रदेश में मात्र 2.4 प्रतिशत लोग संक्रमित निकले हैं।

जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना नियंत्रण एवं बचाव संबंधी व्यवस्थाओं की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए कहा कि 30 अप्रैल को जांच रिपोर्ट में प्रदेश में मात्र 2.4 प्रतिशत लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इनमें भोपाल में 1.9 प्रतिशत, इंदौर में 2.2 प्रतिशत और जबलपुर में 4.4 प्रतिशत लोग संक्रमित पाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह अच्छे संकेत हैं। हम शीघ्र ही कोरोना को परास्त करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इंदौर की स्थिति में भी निरंतर तेज गति से सुधार हो रहा है। गत 30 अप्रैल की जांच रिपोर्ट में इंदौर के 451 जांच परिणाम में से मात्र 10 संक्रमित निकले हैं। प्रदेश

प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में इस विषाणु से संक्रमित मरीजों की हालत में भी निरंतर सुधार हो रहाँ है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ हो रहे है और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा रही हैं।

की 30 अप्रैल की जांच रिपोर्ट में कुल 2617 जांच में से केवल 65 संक्रमित लोग मिले हैं। भोपाल में की गई 1275 लोगों की जांच में से 25 तथा जबलपुर के 157 लोगों की जांच में से सात संक्रमित लोग पाए गए हैं। उज्जैन में की गई 94 लोगों की जांच में 11 लोग संक्रमित मिले हैं।

चौहान ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के कोरोना संक्रमण क्षेत्रों का पनर्निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक क्षेत्रों को संक्रमण क्षेत्रों में से हटाया जाए।

प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में इस विषाणु से संक्रमित मरीजों की हालत में भी निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ हो रहे है और उन्हें

अस्पतालों से छुट्टी दी जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि भोपाल में कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है तथा इंदौर में केवल छह मरीज वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने से अब राज्य में 2006 लोगों का इलाज चल रहा है।

अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश के आधे जिले 'ग्रीन जोन' में, तीन जिले इंदौर भोपाल तथा उज्जैन 'रेड जोन' में तथा शेष जिले 'ऑरेंज जोन' में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सभी जिलों को शीघ्र 'ग्रीन जोन' में लाना है।

अपर मुख्य सचिव आइसीपी केशरी ने बताया कि विभिन्न राज्यों से अभी तक लगभग 35,000 मजदुर मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। इनमें राजस्थान से 25,000 गुजरात से 6,000 उत्तर प्रदेश से 2,000 तथा महाराष्ट्र से 2,000 मजदूर आए हैं

उन्होंने बताया कि सभी मजदुरों की सीमा पर स्वास्थ्य जांच की जा रही है तथा उनकी भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस बात का पुरा ध्यान रखा जाएं कि बसै एक साथ ना आएं तथा भीड़ नहीं हो।

## केरल माओवादी मामला : एनआइए ने दो स्थानों की तलाशी ली

कोझिकोड/मलप्पुरम, १ मई (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने दो छात्रों के माओवादी होने के मामले में शुक्रवार को कोझिकोड के दो स्थानों की तलाशी ली। एनआइए के सूत्रों ने जांच की पृष्टि की है लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी।

बताते चलें कि जांच एजंसी ने माओवादी मामले में एर्णाकुलम के एनआइए की विशेष अदालत में 27 अप्रैल को गिरफ्तार दो कॉलेज छात्रों अलान सुहैब (20 वर्ष) और थवाहा फजल (24 वर्ष) और भगोड़े सीपी उस्मान (40 वर्ष) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया, 'जांच में खुलासा हुआ कि तीनों गैरकानूनी आतंकवादी संगठन भाकपा (माओवादी) के सदस्य हैं और संगठन का प्रभाव बढ़ाने के लिए गोपनीय बैठक एवं गैर कानूनी गतिविधियां चला रहे थे।

सुहैब और फजल को पिछले साल राज्य पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि निवारण कानून युएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। दोनों क्रम से पत्रकारिता और विधि के छात्र हैं और कोझिकोड जिले के माकपा के भी

सदस्य थे। इसके बार मामले की जांच एनआइए ने अपने हाथ में ले ली।

इस बीच, पुलिस ने शुक्रवार को माओवादी सीपी जलील के घर की तलाशी ली जिसे पिछले साल मार्च में वायनाड में हुई मुठभेड़ में मार गिराया था। माकपा ने माओवादियों से कथित संबंध होने पर सहैब और फजल को फरवरी में पार्टी से निकाल

मलप्पुरम के पुलिस अधीक्षक यू अब्दुल करीम के मुताबिक जलील से जुड़े लोगों से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर उसके भाई के घर की तलाशी ली गई जो पंडीक्कड के नजदीक रहता है।

उन्होंने बताया कि जलील के परिवार के अलावा घर में तीन पुरुष और तीन महिलाएं थीं। तीन उनके रिश्तेदार हैं जबकि तीन बाहरी लोग हैं। जलील के घर से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने घर से कुछ पर्चे, फोन के मेमोरी कॉर्ड, कुछ सिम कार्ड मिले हैं। हम उनपर नजर रख रहे हैं।

दिनांक: 02.05.2020

## चेन्नई से दोस्त का शव लाने के बाद पुरस्कार राशि राहत कोष में दान की

एजल, १ मई (भाषा)।

चेन्नई से अपने दोस्त के शव को मिजोरम लाने के लिए एक शख्स ने करीब तीन हजार किलोमीटर का सफर तय किया और अब पुरस्कार के तौर पर मिली राशि को उसने कोविड-19 वैश्विक महामारी से जंग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) में दान कर दिया है। मिजोरम के सुदूर दक्षिणी कोने में स्थित लॉन्गतलई जिले के हमांगबु गांव के निवासी, 23 वर्षीय रफायल एवीएल मलछनहिमा ने 5,000 रुपए गुरुवार को राहत कोष में दान कर दिए।

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने युवा के नेक कार्यों के लिए उसकी सराहना एक नायक के तौर पर की।

उन्होंने ट्वीट किया, 'मानवता में भरोसा एक बार फिर बहाल हुआ है। अपने दोस्त के शव को तीन हजार किलोमीटर से अधिक दूरी तक साथ लाने के निस्वार्थ एवं वीरतापूर्ण कार्य मजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने युवा के नेक कार्यों के लिए उसकी सराहना एक नायक के तौर पर की।

उन्होंने ट्वीट किया, 'मानवता में भरोसा एक बार फिर बहाल हुआ है। अपने दोस्त के शव को तीन हजार किलोमीटर से अधिक दूरी तक साथ लाने के निस्वार्थ एवं वीरतापूर्ण कार्य के बाद, रफायल एवीएल मलछनहिमा ने सरकार द्वारा निर्धारित पृथक केंद्र से मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,000 रुपए दान किए।'

के बाद, रफायल एवीएल मलछनहिमा ने सरकार द्वारा निर्धारित पृथक केंद्र से मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,000 रुपए दान किए।

मलछनहिमा ने कहा कि उन्होंने छोटे से तरीके से अपना योगदान दिया है क्योंकि वह अपने राज्य में लोगों के सामने आ रही दिक्कतों को जानते हैं। मलछनहिमा ने कहा,

'मैं जानता हूं कि फिलहाल मेरा राज्य उस संकट का सामना कर रहा है जिसने लोगों के लिए बहुत दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। मेरे पास बहुत सीमित संसाधन है और मैं अपने राज्य के लिए बहुत काम कर सकता हूं। मैंने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए 5,000 रुपए दान किए हैं।' दसवी कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने परिवार के गुजर-बसर के लिए चेन्नई के एक होटल में काम करता है।

मलछनहिमा फिलहाल आइजोल में राज्य सरकार के एक केंद्र में पृथक-वास में है।

उन्होंने कहा, 'मैं यहां अच्छा वक्त बिता रहा हूं। सरकार जो कुछ दे सकती है हमें दे रही हैं। मैं उनकी ओर से की जा रही देखभाल से खुश हूं।' उन्होंने दूसरों से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की है, चाहे राशि कितनी भी मामूली हो। डिलीवरी करने वाले एक लड़के किमा राल्टे की भी मुख्यमंत्री ने तारीफ की है जिसने अपनी बचते से सौ रुपए राहत कोष में दान किए हैं।

## भिवंडी से साइकिल से महाराजगंज जा रहे श्रमिक की हुई मौत संदर्भ संख्या 05-2021-डब्ल्यूएसएफ/01डब्ल्यू

बड़वानी (मप्र), 1 मई (भाषा)।

पुर्णबंदी के कारण भिवंडी (महाराष्ट्र) से साइकिल से अपने घर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जा रहे 50 वर्षीय एक प्रवासी मजदूर की 390 किलामीटर की दूरी तय करने के बाद मध्य प्रदेश के सेंधवा के निकट मौत हो गई। मृतक के साथियों ने बताया कि पूर्णबंदी के कारण भिवंडी में कोई काम नहीं मिलने के कारण तबारक मंसरी (50) और 11 अन्य श्रमिक अलग-अलग साइकिलों से घर वापस जा रहे थे। मुंबई- आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेंधवा के पास गुरुवार को मंसुरी की तबियत बिगड़ने के बाद उसका निधन हो गया।

मंसुरी के साथ दूसरी साइकिल पर उत्तर प्रदेश जा रहे रमेश पंचार ने बताया कि लॉकडाउन के चलते भिवंडी में उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वह अपने 11 साथियों के साथ साइकिल पर भिवंडी से महाराजगंज के लिए निकल पड़े। भिवंडी से महाराजगंज के बीच की दरी लगभग 1600 किलोमीटर है।

मंसुरी के एक अन्य साथी ने बताया कि हम सभी श्रमिक भिवंडी में पॉवरलुम में काम करते थे और वहां से साइकिल से 25 अप्रैल को चले थे। पंचार ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर सेंधवा के पास गुरुवार को मंसुरी की तबियत अचानक खराब हो गई और संभवतः दिल का दौरा पड़ने और थकान के चलते उसकी मौत हो गई।

सेंधवा ग्रामीण पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक वीएस परिहार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

#### जेएनपीटी, मुम्बई में विभिन्न श्रेणियों के पानी में घुलनशील उर्वरकों (डब्ल्युएसएफ-एनपीके) की आपूर्ति के लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत विवरण के लिए वेबसाइट www.nationalfertilizers.com, www.eprocure.gov.in तथा tenderwizard.com/ NFL (ई-टेंडर नं. एनएफएल-2057) देखें। बोली जमा करने की अंतिम तारीख 18 मई 2020 (अपराहन 2.00 बजे भा.मा.स.) है। संशोधनी/संयोजनी, यदि कोई है, सिर्फ उपरोक्त कार्यकारी निदेशक (सामग्री) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरल कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) ICD, Tughlakabad, New Delhi - 110 020 निविदा सूचना (केवल ई-निविदा माध्यम से) पीएसडब्ल्युसी, दप्पर में इनलैंड कंटेनर डिपो में कार्गों हैंडलिंग हेतु प्रोफेशनल सेवाओं के लिए ई-निविदा—सह-रिवर्स नीलीमी के लिए दो बोली प्रणाली में कंवल ई-निविदा पद्धति के माध्यम से ऑनलाइन खुली निविदा का आमंत्रम। सीओएन / एनआर / टीसी / कार्गों हैं ड. / पीएसडब्ल्य्सी / 2020 आईसीडी / पीएसडब्ल्यूसी, दप्पर में कामी हैंडलिंग हेतु प्रोफेशनल सेवाए ₹६४,91,602 / - (जीएसटी सहित) प्रतिवर्ष संविदा की अवधि

वैश्विक ई-निविदा आमंत्रण सूचना

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड

(CIN: L74899DL1974GOI007417) ए-11, सेक्टर-24, नोएडा-201301, दूरभाष: 0120-2412294, एक्सटेंशन: 2220

ई-मुगतान के माध्यम से ₹1,09,900/-ई-मुगतान के माध्यम से सभी कर और खयूटीज सहित ₹1000 /-ई-मुगतान के माध्यम से सभी कर और ड्यूटीज सहित ₹3,240 /- (अप्रतिदेश 02.05.2020 अमराहन 1500 बजे से (15.06.2020 अपराहन 1600 बजे तक) ई-सुगतान के माध्यम से

पात्रता मानदंड और अन्य विवरणी हेतु कृपया www.concorindia.com अथवा eprocure.gov.in अथवा www.tenderwizard.com/CCIL पर लीगुऑन करें। बोलीदालाओं से वेबसाइट को नियमित रूप से देखने का अनुरोध क़िया रखता है। संपूर्ण जानकारी के लिए www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉगऑन करें। समूह. महाप्रबंधक / फरारी दोत्र

एनआईआईटी लिमिटेड

Phone No.: +91-11-41675000, Fax No: +91-11-41407120 CIN: L74899DL1981PLC015865

Website: www.niit.com, Email: investors@niit.com

7 किताबार, 2016 से प्रभावी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रासय द्वारा अधिसृचित निषेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष

अधिक रंग (शेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमायशी, 2016 ("नियमायशी") तथा ठराके अंतर्गत किये गये संशोधनों के साथ पठित कप्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्राधवानों के अनुपासन

नियमायली के अनुसार अप्रदत्त अभवा दाधा-रहित लाभांशों को कम्पनी द्वारा सात वर्षों की पूर्णता के बाद

पंजी. कार्यालय: ८, बालाजी इस्टेट, प्रश्रम तल,

गुरु दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

## दंडात्मक कार्रवाई से वकील प्रशांत भूषण को संरक्षण

नई दिल्ली, 1 मई (भाषा)।

पहुंचाने के कारण अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ गुजरात के राजकोट में दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी के मामले में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से शुक्रवार को संरक्षण प्रदान कर दिया। प्रशांत भूषण के खिलाफ पूर्व सैनिक जयदेव रजनीकांत जोशी ने राजकोट में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रशांत भूषण ने दुरदर्शन पर रामायण और महाभारत धारावाहिक के फिर से प्रसारण के खिलाफ ट्वीट करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।

भी देख सकता है।' साथ ही पीठ ने सवाल किया कि कोई किसी कार्यक्रम विशेष को नहीं देखने के लिए लोगों से कैसे कह सकता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूषण की याचिका पर सुनवाई की और गुजरात सरकार को नोटिस जारी। पीठ ने इस मामले को दो सप्ताह बाद आगे सुनवाई के लिए सचीबद्ध किया है।

भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने यह ्रशीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण को अंतरिम राहत और प्राथमिकी निरस्त करने का अनुरोध करते हुएँ पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस - संरक्षण प्रदान करते हुए कहा, 'कोई भी व्यक्ति टीवी पर कुछ - फिलहाल उन्हें किसी भी तरह की दंखत्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाए। जोशी ने अपनी शिकायत में भूषण पर आरोप लगा कि उन्होंने 28 मार्च को एक ट्वीट में रामायण और महाभारत के लिए 'अफीम' शब्द का इस्तेमाल करके तमाम हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है।

दवे ने कहा कि वह इस मुद्दे पर नहीं है कि लोगों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं बल्कि वह तो सिर्फ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के ख़िलाफ ही बहस कर रहे हैं।

## खोले जाने की तैयारियां अंतिम दौर में

उत्तराखंड के उच्च गढवाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्वप्रसिद्ध चारधामों में से एक बदरीनाथ धाम के कपाट नए मुहर्त पर 15 मई को खोले जाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले 30 अप्रैल को बदरीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाने थे लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण कपाट खोले जाने की तिथि 15 दिन आगे बढ़ा दी गई थी और 15 मई को तड़के साढ़े चार बजे कपाट खोलने का नया मुहर्त निकाला गया था।

उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डा हरीश

पहनना अनिवार्य किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निषेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना पड़ता है। पुनः कप्पनी की ऐसी इक्किटी रोपरी जिनके संदर्भ में समावार साव वर्षी अभवा अधिक से साभांश दाया- रहित अभवा अप्रदत्त रहा है, को कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा रामा संरक्षण कोष ("आईईपीएक") सस्पेश खाता. भारत में कोशिड -19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए कम्पनी ऐसे शेयरधारकों को वैयक्तिक सुचनाएं भेजने में असपर्थ है जिन्होंने आईईपीएफ नियमों के अनुसार सामातार सात (7) वर्षों अथवा अक्षिक से अपने साधांत्र का दाजा नहीं किये हैं। सामान्य रिपरि बहास हो जाने के बाद कम्पनी उनके पंजीक्त परो पर ऐसे शेयरधारक को सूचनाएं प्रेषित करेगी जिसमें अन्य बातों के असाबे उनके दाधा-रहित साधांशक। बिधरण उपसम्बद्ध होग वथा आईईपीएफ प्राधिकरण की डीपैट खाता में उनके रोगरों के अंतरण से अचने के शिमे अधिकराम सुक्रधार, 17 जुसाई, 2020 तक ठकत दाधा रहित साधांश की मांग करने का अवसर उन्हें उपसम्बद्धाता। ऐसे शेयरधारको, आईई पीएफ सस्पेंश खाता में अंतरण के लिये नियत दाचा-रहित. लाभांश तथा शेयरों क विवास कप्पनी की वैभागाईट www.niitcom पर उनकी जानकारी तथा शैयरधारकों द्वारा आवश्यक कार्रधा रांबंधित शेयरधारक आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियव दावा- रहित/अप्रदत्त साथांश तथा शेयरों के विवरणे की जॉन कर में तथा उनकी साधांश का दावा का सपर्धन करने धासी आवरयक दस्तावेजों के साथ नीने दर्शाये गये परी पर कप्पनी से सम्पर्क करें। 17 जुलाई, 2020 तक प्रत्युवर नहीं मिलने पर कप्पनी नियमावसी द्वार

NIIT

निर्दिष्ट नियत तिथि अथणा आधरयक अनुपासन के लिए लागू होने चाली विस्तारित तिथि तक कम्पनी लाभांर एकं/अभवा शेयरों के अंतरण की कार्यवाई करेगी। इस संदर्भ में कृपया ध्यान रहे कि i) भौतिक पद्धति में धारित रोबरों के लिए: नए रोबर प्रपाणका(जो) जारी किए जाएंगे तथा बिना कोई आगे राचना के आईईपीएफ प्राधिक रा की डीपैट खाता में ठरो अंतरित किया जाएगा। पुनः ऐसे नधीन शेयर प्रमागपण(जों) के निर्गम पर आपके नाप में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र रुपतः निरस्त हो जाएंगे तथा ठरो गलत डेलियरी माना जाएगा। ii) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भारित शेयरों के क्षिए उनके शेयर आगे बिना किसी सूचना के डिपॉनिटरी पार्टिसिपैन्ट्स की पदद रं आईईपीएफ प्राविकरण की डीपैट खाता में प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किया जाएगा। रादरयाग्य पुनः ध्यान रखें कि उराकी धेष्ठराहंट पर कप्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई शिवरणों को आईईपीएफ

में शेयरों के अंतरण के लिए कप्पनी द्वारा दुष्मिकेट शेयर प्रमागपत्र(त्रों) को जारी करने के लिए पर्यापा सूचन माना जाएगा। कृप्या ध्यान रहे कि उकत नियमाधाली के अनुसार आईईपीएफ प्राविकरण में अंतरित दावा-रहित साभारा तथा रोयरों के सिए कप्पनी के शिरुद्ध कोई दाया नहीं की जा सकती है।

संबंधित शेयरधारक कपर धर्णित आईईपीएफ नियमायली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण क आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ में अंतरित दावा- रहित साभांश राशि तथा शेयरों का दावा कर सकते हैं उक्त विषय पर किसी प्रकार की पृष्ठताल के लिए आप 3, भालाजी इस्टेट, गुरु रहि। दास पार्ग, कालकाजी, न दिस्सी-110019, फोन 011-41675000; फैकरा: 011-41407120, ईपेस: investors@niit.com प कप्पनी के निषेशक शिक्षा विभाग से सप्पर्क करें।

एनआईआईटी लिपिटेड के लिए

तिथि: 1 मई, 2020

दीपक बंसर कप्पनी सविष

## साइकिल से अपनी दुलहन ब्याहने पहुंच गया उसके गांव

हमीरपुर (उप्र) 1 मई (भाषा)।

पूर्णबंदी के कारण प्रशासन से शादी की इजाजत न मिलने के बाद 23 साल के एक युवक ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दलहन को ब्याहने अकेले साइकिल से ही उसके घर पहुंच गया। पौथिया गांव के कल्कु प्रजापति की शादी 25 अप्रैल को निर्धारित थी और वह प्रशासन से अंतिम समय तक इजाजत का इंतजार करता रहा लेकिन जब इजाजत नहीं मिली तो उसने अकेले साइकिल से महोबा जिले के पुनिया गांव में अपनी दुलहन के घर जाने का फैसला कर लिया

दसवी कक्षा पास किसान कल्क ने बताया, हमें स्थानीय पुलिस से शादी करने की इजाजत नहीं मिली। तब हमने अकेले ही

www.readwhere.com

दसवीं कक्षा पास किसान कल्कू ने बताया, हमें स्थानीय पुलिस से शादी करने की इजाजत नहीं मिली। तब हमने अकेले ही साइकिल से वहां पहुंचने का फैसला कर किया। लड़की के घरवालों ने शादी के कार्ड छपवा लिए थे और शादी की सारी तैयारियां कर चुके थे। उन्होंने बताया मेरे पास मोटरसाइकिल है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसलिए सुबह सुबह हम जींस टी शर्ट पहन कर मुंह पर कपड़ा बांध कर रवाना हो गए।

साइकिल से वहां पहुंचने का फैसला कर किया। लड़की के घरवालों ने शादी के कार्ड छपवा लिए थे और शादी की सारी तैयारियां कर चुके थे। उन्होंने बताया मेरे पास मोटरसाइकिल है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसलिए सुबह सुबह हम जीस टी शर्ट पहन कर मुंह पर कपड़ा बांध कर खाना हो गए। शादी गांव के मंदिर में हुई। शादी के बाद जो फोटो आई उसमें दुल्हा दुलहन चेहरे को पूरी तरह से ढके नजर आए। शादी की कुछ आवश्यक रस्में ही अदा की गई। अब यह नवविवाहित जोड़ा पुर्णबंदी हटने का इंतजार कर रहा है ताकि बाकी कार्यक्रम कर गांव वालों को एक शानदान दावत दी जा सके। शादी के बाद कल्कू अपनी पत्नी को

साईकिल पर बिठा कर गांव वापस आए।

कल्कु ने बताया, मुझे लौटने में साइकिल चलाने में परेशानी तो हो रही थी लेकिन शादी की खुशी में किसी तरह घर पहुंच गया। मेरे पैरों में बहुत दर्द था जिसे दूर करने के लिए मुझे दर्द की दवा लेनी पड़ी हा उनसे पूछा गया कि उन्होंने बंदी हटने का इंतजार क्यों नहीं किया तो कल्कू ने बताया कि हमारे घर में मां की तबीयत खराब थी और वह खाना नहीं बना सकती थीं। इसके अलावा यह भी नहीं मालुम था कि यह पूर्णबंदी कब तक चलेगी।

कल्क के पिता छोटे लाल प्रजापित ने बताया कि शादी चार से पांच माह पहले ही तय हो चुकी थी। लड़की के परिवार वाले शादी करने को कह रहे थे इसलिये कल्कू चला गया शादी करने।

# बदरीनाथ के कपाट

देहरादून, 1 मई (भाषा)।

गौड़ ने बताया कि बदरीनाथ के कपाट खुलने की व्यवस्थाओं में कर्मचारी जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया, 'मंदिर परिसर से बर्फ हटाई जा चुकी है। मंदिर पर रंग रोगन का काम भी अंतिम चरण में है। पानी, बिजली ब्यवस्था बहाल की जा चुकी है।' उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं

की तैयारियों में जुटे कर्मचारियों के लिए सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखे जाने के अलावा मास्क